

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

3119

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 326] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 12, 1984/आषाढ़ 21, 1906
No. 326] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 12, 1984/ASADHA 21, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
विकास आयुक्त (शोध) का कार्यालय
आदेश

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1984

क्र० आ० 503 (अ) - केन्द्रीय सरकार, शोध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979
के पैरा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट
कीमतों की, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं
द्वारा उत्पादित और उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रपुंज

औषधि के संबंध में, प्रतिधारण कीमत तथा उक्त सारणी के स्तंभ (5) में उक्त प्रपूज औषधि में से प्रत्येक की भावत विनिर्दिष्ट कीमत को सामान्य विक्रय कीमत नियत करती है :—

सारणी				
क्रम सं० प्रपूज औषधि का नाम	विनिर्माता का नाम	प्रतिधारण कीमत (र०/कि० ग्राम)	सामान्य विक्रय कीमत (र०/कि० ग्राम)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सोडियम ऐस्कोबेट	मैसर्स साराभाई एम० केमिकल्स	186.69	186.69
2.	सोडियम ऐस्कोबेट	मैसर्स जयंत विटामिन्स लिमिटेड	232.37	232.37

[सं० 8 (20)/83-औषधि-II]

ई० एन० मूर्ति, उपसचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

Office of the Development Commissioner (Drugs)

ORDER

New Dehi, the 12th July, 1984

S.O. 503(E).—In exercise of the powers conferred by paragraph 4 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes the price as specified in column (4) of the Table below to be the retention price in respect of the bulk drug specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, produced by the manufacturer specified in the corresponding entry in column (3) thereof and the price specified in column (5) of that Table to be the common sale price in respect of each of the said bulk drugs :

TABLE

Sl. No.	Name of the Bulk Drug	Name of the Manufacturer	Retention price (Rs./Kg.)	Common sale price (Rs./Kg.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sodium Ascorbate	M/s. Sarabhai M. Chemicals	186.69	186.69
2.	Sodium Ascorbate	M/s. Jayant Vitamins Limited	232.37	232.37

[No. 8(20)/83-Drug.-II]

E.N. MURTHY, Dy. Secy.